
shrIrAmamahimnaH Stotram with Hindi meanings

श्रीराममहिम्नः स्तोत्रम् सार्थम्

Document Information

Text title : rAmamahimnaHstotram

File name : rAmamahimnaHstotram.itx

Category : raama

Location : doc_raama

Author : rAmAchArya, Ayodhya, 17th century scholar

Transliterated by : Hindi meanings Mandar Mali aryavrutta at gmail.co

Proofread by : PSA Easwaran, Hindi meanings Mandar Mali aryavrutta at gmail.com

Translated by : Dr. Gayacharan Tripathi

Description-comments : Brihatstotraratnakara 2, Narayana Ram Acharya, Nirnayasagar,
stotrasankhya 225-425

Latest update : March 24, 2017

Send corrections to : sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts are generated using **sanscript**.

November 22, 2022

sanskritdocuments.org

श्रीराममहिम्नः स्तोत्रम् सार्थम्



श्रीगणेशाय नमः ॥

(शिपरिणी छन्दः)

महामोडावर्ते पतितमिड मां ते शरणागं
शरण्यस्त्वत्तोऽन्यः प्रभवति न कोऽप्यत्र जगति ।
अतस्त्वत्पादाभोरुडयुगलमाश्रित्य नितरां
स्थितोऽहं संसाराद्दृष्टिननियथाद्दुष्टर विभो ॥ १ ॥

निजाव्यक्तेनेहं जगदपिलमिच्छादिकरणैः
समुत्पन्नं प्रत्यावसितसततं श्रीरघुपते ।
युगान्ते सर्वं वै हरसि किल रौद्रेण वपुषा
त्वमेकः सर्वात्मन्विहरसि न यान्यो गुणनिधे ॥ २ ॥

रमन्ते योगीन्द्रास्त्रिपुरहरमुभ्यास्त्वयि सदा
समाधौ विश्वात्मन्नियमितलृषीको रघुपते ।
तथाप्येते पारं निपिलनिगमागोचरविभो
महिम्नस्ते गन्तुं गमयितुमलं नैव कुशलाः ॥ ३ ॥

कदाचिद्भूमौमान्वै गणयति कषाण्डोऽपि मतिमान्
तथा पारावारोऽकलवययान्वै रघुपते ।
क्वचिन्नक्षत्रौघं विषमगणानं पारयति वै
गुणानां ते पारं गमयितुमलं नैव कुशलाः ॥ ४ ॥

ऋतं सत्यं भूमन्सगुणमगुणं उपमुत्थं
सिदानन्दं तद्वै निपिलनिगमैरप्यविदितम् ।
समष्टिव्यष्टी ते विलसति विराडूपमपरं
तदेतद्वै किञ्चित्स्फुरति लृष्टये यैव विदुषाम् ॥ ५ ॥

विरिञ्चिशेन्द्राद्यैरमरनिवहैः सिद्धमुनिभिः

स्तुतस्त्वं भूभारं व्यसनमपहर्तुं सुरपतेः ।
 विभुः कौसल्यायां दशरथगृहे स्वानुजयुतः
 समुद्भूतश्चक्रे निजपदकृतार्था वसुमतीम् ॥ ६ ॥
 मुनेर्विश्वामित्राश्छरणाद् भवां याप्यतिभवां
 मडाविधां प्राप्य प्राणतसुभसौभाग्यद विभो ।
 शरेणैकेन त्वं निशियस्वधूं यातिमहतीं
 मडाधोरां उत्वा विपिनमभयं यैव कृतवान् ॥ ७ ॥
 करालास्यं घोरं निशियरयुगं कौषापवरं
 श्रुतीनां द्वेषारं मुनिमभविधाते य निरतम् ।
 सुभातुं मारीयं निशितविशिषेनोरसि दृढं
 निखत्येकैकेनाध्वरभुवि पुरा प्राकृतधियम् ॥ ८ ॥
 शिलाभूतां शापाव्यरणरजसा गौतमवधूं
 यथापूर्वा कृत्वा परमसुभगां यातिविमलाम् ।
 मडोत्तुङ्गं थापं सपदि शितिकण्ठस्य सुदृढं
 द्विधा भाणं यक्रे जनकनगरीं प्राप्य मुनिना ॥ ९ ॥
 शरद्राकेशास्यां विमलकलधौताङ्गरुचिरां
 स्फुरद्रत्नाकल्यां जनकतनयां विश्वजननीम् ।
 सुभार्या यद्रामो विधिवदुपयेमे सुललितां
 मडेन्द्रेशभ्रजामरमुकुटनीराजितपदाम् ॥ १० ॥
 मडाधोरं त्रुट्यत्त्रिपुरलरयापस्य निनदं
 समाकण्ठं क्रोधाद्भृगुकुलपतेः क्षत्रियशिपोः ।
 पथि प्राप्सस्यास्य स्मयमपि जडर्थं त्वमत्तुलं
 मडाविधे प्रद्योतनकुलमणे पाळि नितराम् ॥ ११ ॥
 सुराणां रक्षायै सपदि पितुराज्ञां सकरुणं
 समादाय प्रागावनमनुजयुक्तो वनितया ।
 जनस्थानं प्राप्य मालवटतरुणां हलवता-
 मधश्चक्रे वासो दनुजकुलनाशाय य विभो ॥ १२ ॥
 प्रभो लङ्केशस्य प्रबलतमवीर्यस्य भगिनीं
 विरुपां कृत्वा वै दनुजभरमुष्यान्निशियरान् ।
 सुरारातीन्-उत्वा द्विजकुलविधातेषु निरता-

निरातङ्गं यङ्के विपिनमपि स्वैरं जनपदम् ॥ १३ ॥

दशग्रीवाज्ञानः कनकमृगशृणो विचरन्
विचित्रो मारीचः प्रसन्नमभियातः स्वनिङ्कटे ।
असौ मायावीति प्रज्ञातजनसौभाग्यद विभो
त्वया ज्ञात्वा नतिः सपदि विशिष्येनान्तकपुरीम् ॥ १४ ॥

मुमूर्षुः पौलस्त्यः उपटयतिवेषेण कुमतिः
परोक्षं सीताया उरामकरोच्छ्रीरघुपते ।
सुराणां रक्षायै रजनियरनाथस्य उन्नं
विमृश्यैतत्सर्वं भरुदर तवैवेङ्गितमभूत् ॥ १५ ॥

वियोगे जानक्यास्त्वित्त्वत्तु मनुजभावेन विचरन्
जटायुं दृष्ट्वा वै विपिनगतमासन्नमरणम् ।
त्वया तस्योद्धारः स्वकरकमलेनैव विहित-
स्तवैतद्वात्सल्यं विलसति हि भक्तोऽनु नितराम् ॥ १६ ॥

कबन्धं क्वयां निशितकरवालेन मडता
द्रुतं उत्वा पम्पातटमनुजयुक्ताश्च गतवान् ।
युवां दृष्ट्वा ज्ञातुं प्लवगपतिना वायुतनयः
समाज्ञानश्चागाद्भरुद तव पादाब्जयुगलम् ॥ १७ ॥

समाकार्यं त्वत्तः सकलमसुरारातिममलं
विदित्वा निःशङ्कं दशरथसुतं त्वां रघुपते ।
मडोत्साडोन्नतः सपदि गिरिशृष्टे अनुमता
प्रभुः सुग्रीवेण प्लवगपतिना सप्यमकरोत् ॥ १८ ॥

कपीशं उत्वा वालिमतुलबलवीर्यं स्मयभरं
दुराधर्षं देवैरसुरनिवडैरप्यसुलभम् ।
त्वया सुग्रीवाय प्लवगकुलराजेंद्रपदवी
प्रदत्ता देवेश प्राज्ञातजनवात्सल्यजलधे ॥ १९ ॥

प्रतापात्ते नूनं सलिलनिधिमुल्लङ्घय तरसा
गतो लङ्कां दृष्ट्वा जनकतनयां यातिपिमलाम् ।
निहत्याक्षं दग्ध्वा पुरमथ समुत्पाटय विपिनं
उन्मूमान्त्वत्यां पुनरपि समागाद्भृगुपते ॥ २० ॥

विदित्वा सीतायाः पवनजमुष्पाङ्गुभमतुलं
निङ्क्तुं कृत्यादेश्वरमपि तथा राक्षसकुलम् ।
प्रतस्थे सुग्रीवाङ्गदण्डनुमदाद्यैः कपिभटैः
सुगुणामादाय प्लवगकुलसेनां य मडतीम् ॥ २१ ॥

प्लवङ्गैर्भल्लकैरमितभुजवीर्यैः परिवृतो
निषङ्गी कोटाडी शरमपि ध्यानः करतले ।
कृमान्मार्गं नीत्वा सलिलनिधितरे सुविपुले
गतस्त्वं सुग्रीवाङ्गदण्डनुमदाद्यैः कपिवरैः ॥ २२ ॥

तवाग्रे तत्रागाच्छरणाद् दशास्यानुजवरः
प्रपन्नस्त्वत्यादाम्भुजयुगलमाराध्यममरैः ।
कृपापारावारामितगुणनिधे सिन्धुपुलिने
त्वया दत्ता तस्मै वृञ्जिनडर लङ्केशपदवी ॥ २३ ॥

उषित्वा तत्तीरे त्रिदिनमरविन्दोक्ष कपिभिस्ततः
किञ्चित्कोषान्निधमनभयात्ते जलनिधिः ।
पुरः प्रह्वीभूतो रुचिरवचनैः श्रीरघुपते
स्तुतिं यत्के नत्वा पुलकिततनुर्गाद्गदगिरा ॥ २४ ॥

अकूपारस्यान्ताद्दशदिशगतैर्वानरभटै-
स्त्वयाऽऽज्ञासैर्नीता निजभुजबलैः प्रस्तरथयाः ।
पुनस्तैः पाषाणैर्विपुल षड नीलेन रथितो
मडासेतुर्वार्धौ तव विदितनाभ्रोऽस्ति मडिमा ॥ २५ ॥

यदेते पाषाणाः सततमुदके मज्जनपरा-
स्तरन्त्यर्धौ नूनं जगति परमं याद्भुतमिदम् ।
किमाश्चर्यं तत्र क्षणायलितनेत्रान्तविभवः
कटाक्षस्ते नूनं जगति कति ब्रह्माण्डरथनाः ॥ २६ ॥

समुत्तार्याशेषान्प्लवगनिवडाल्लक्ष्मणायुत-
स्ततो लङ्कां गत्वा स्वयमपि समुत्तीर्णजलधिः ।
निङ्क्त्याजौ सर्वं रजनिचरवृन्दं य सकुलं
दशग्रीवं लत्वा विमलतरमैश्वर्यमकरोः ॥ २७ ॥

विरिञ्चीशेन्द्राद्यैरमरनिवडैः सिद्धमुनिभिः
स्तुतः स्तोत्रैः कृत्वा कुसुमययवृष्टिं सुविपुलाम् ।

कटाक्षेणैवैतास्त्रिदशमुनिमुष्यान्करुणया
विलोक्य प्रध्वस्तं भयमभिलभेषां रघुपते ॥ २८ ॥

प्रभो त्वं सुग्रीवप्रभुभवि विघैर्वानरभटैर्युतो
वैदेर्डी वै दहनसुविशुद्धां सुविपुलाम् ।
समादाय स्थित्वा धनपतिविमाने सुविमले
वितन्वन्स्वानां वै मुदमतुलमागान्निजपुरीम् ॥ २९ ॥

सहस्रं वर्षाणामयुतमपि कुर्वन्सुसुतीं
सनाथां वैदेडीरमण कृतवान् राज्यमतुलम् ।
अयोध्यायां देवासुरनृपकिरीटेषु निश्चितै-
र्मंडारनैर्नीराजितयरण्यकुंडेरुड विभो ॥ ३० ॥

कृशानुः शेषाद्यः शशधरयुतो विजयमति ते
भजन्ति ध्यायन्तस्तव यरण्यपडुंडेरुडयुगम् ।
गृहे तेषां पद्मा विहरति मुषे गीः सुललिता
सुभोगान्भुक्त्वान्ते तव वरपदं यान्ति परमम् ॥ ३१ ॥

भभीजं शेषाग्रौ दहनमपरश्चैव पवनो
नमोऽन्तः षड्रण्यपरमपदुडेतुश्च भजताम् ।
धमं मन्त्रं यो वै जपति गुरुवक्त्रादधिगतं
जगत्यूज्यो भोगान्भुवि परमदिव्यान्स लभते ॥ ३२ ॥

धनश्यामं विद्युत्प्रभवसनमाकल्परुचिरं
सरोजक्षं शैवामितमदनलावण्यसुभगम् ।
तडिद्रण्यं वामे जनकतनयां राघवमुभं
प्रपश्यन्तीं ध्यायन् भजति परमां सिद्धिमतुलाम् ॥ ३३ ॥

अनन्तान्याहुर्वै तव विविधरूपाणि भगवन्न
तानि ज्ञातुं वै कथमपि समर्थाश्च विबुधाः ।
विभूतीनामन्तं ते विमलबल को वेत्ति नितरा-
मतद्व्यावृत्त्या वै त्वयि सकलवेदाश्च यजिताः ॥ ३४ ॥

तवेदं यद्रूपं सजलजलदाभं सुललितं
तदेतत्तत्त्वज्ञा मुनिवरगणा हृत्सरसिजे ।
मुहुर्ध्यायन्ते वै विगतविषयाः सङ्गरहिता
ययुर्नित्यानन्दं पदमभरवन्धं रघुपते ॥ ३५ ॥

त्वमिन्दुस्त्वं सोमस्त्वमसि तरणिस्त्वं हुतवड-
स्त्वमापस्त्वं भूमिस्त्वससि पवनस्त्वं य गगनम् ।
विरिञ्चिस्त्वं रुद्रस्त्वमसि सकलं दृश्यमिड यत्
त्वदन्यद्भस्त्वेकं न डि जगति भूमन् रघुपते ॥ ३६ ॥

त्वमेवाद्यौ भूमन्निगमनिययानां जलनिधौ
निमग्नानां यैवोद्धरणमकरोर्मानवपुषा ।
सुधाकामैर्नीतं सलिलनिधिनिर्मथनविधौ
गिरिं पृष्ठे त्वं वै दृढकमठरूपेण धृतवान् ॥ ३७ ॥

निडत्याजौ दैत्यं प्रलयजलधौ घोरमतुलं
समुद्धारं भूमेर्गिरिकुलयुतायाः सरभसम् ।

?? line missing in original

मडादंष्ट्रागोशामितगुणनिधे त्वं य कृतवान् ॥ ३८ ॥

स्वभक्तं प्रह्लादं परमविदुषामार्यममलं
विदित्वा तं पित्रा कृतविविधदण्डं कुमतिना ।
विधायोत्रं रूपं नरुडरिविचित्रं त्रिनयनं
जघान त्वं दैत्येश्वरममितवीर्यं रघुपते ॥ ३९ ॥

सुनासीरैश्वर्यं हृतमतुलवीर्येण बलिना
विदित्वेदं राम प्रणतजनवात्सल्यजलधे ।
स्तुतस्त्वं शङ्काद्यैरमरनिवहैर्वाभनवपु-
र्विधायोत्रं वैरोयनमपि अबन्धामरशिपुम् ॥ ४० ॥

कुलं क्षात्रं समन्निगुणमपि कृत्वा रघुपते
जघान त्वं राज्ञां प्रबलमिड शस्त्रास्त्रविशदम् ।
निडत्योग्रान् कंसाप्रमुण्ढितिजान्यादवकुले
त्वमाविर्भूयोत्रं समरभुवि भारं य हृतवान् ॥ ४१ ॥

अनन्तान्येवं वै तव विविधरूपाणि च विभो
प्रवक्तुं तानीड प्रभवति न कोऽप्यत्र जगति ।
परात्मन् श्रीराम त्रिगुणरहिताकारपरमप्रभो
पारावारामितगुणनिधे सिद्धन विभो ॥ ४२ ॥

नमस्ते श्रीराम ह्यमितगुणग्राभाय सततं

नमो भूयो भूयो पुनरपि नमस्ते रघुपते ।
 नमो वेदैर्वन्धापिलमुनिगणाराध्य भगवन्नमो
 भूयो भूयस्तव चरणपङ्केरुडयुगे ॥ ४३ ॥
 मया ते पादाभोरुडयुगलमाश्रित्य नितरा-
 भयोध्यायां भक्त्या विविधपदरभ्यैः सुरयितम् ।
 छंदं रामस्तोत्रं प्रपठति नरो यः प्रतिदिनं
 स भुक्त्वा भोगान्वै भजति परमं शाश्वतपदम् ॥ ४४ ॥
 सडस्रैः शेषो वै प्रभवति न वक्त्रैर्गुणगणान्
 प्रवक्तुं याकल्पं कथमपि य ते राम सततम् ।
 अतस्त्वां कः स्तोतुं प्रभवति ह्यलं श्रीरघुपते
 व्रजन्त्याकाशस्य क्वचिदपि य पारं हि मशकाः ॥ ४५ ॥
 तुभ्यं नमो भगवते रघुनन्दनाय श्रीजानकीप्रियतमाय भ्रान्तकाय ।
 योगीन्द्रपूजितपदाभुरुडद्रयाय संसारदुःखशमनाय नमो नमस्ते ॥ ४६ ॥
 कामाद्या दूर्जयाश्चेन्मम भवतु पुनर्मुक्तियोषित्सु कामः
 कोधश्चेत्तावके वै तव चरणयुगाम्भोरुडे स्याद्य लोभः ।
 मोहश्चेद्दधानयोगे भवतु मम पुनर्मत्सरोमत्सरो वै
 त्वत्पादाभोजसौभ्यस्थितिमिड नितरां नैव पश्यामि भूमौ ॥ ४७ ॥
 इति श्रीमद्रामायार्थविरचितं श्रीराममहिम्नः स्तोत्रं समाप्तम् ॥

॥ श्रीराममहिम्नःस्तोत्रम् छिन्दी भावार्थानुवाद

अनुवादकः श्री गयाचरण त्रिपाठिः
 छस संसार-सागर की मडामोड रुपी भँवर में इंस कर निरन्तर चक्कर भाते डुअे पतित प्राणी की, डे रघुनाथ,
 आप जैसे शरणागत वत्सल को छोडः कर कौन रक्षा कर सकता है ? अतः मैं आपको चरण कमलों का आश्रय
 लेकर यड प्रार्थना करता हूँ कि डे प्रभो, आप मेरी छस संसार से रक्षा कीजिअे जो पापों का भाण्डार है ॥ १ ॥
 आप स्वयं तो पूर्णतः अविकारी और अव्यक्त बने रहते हैं किन्तु अपनी छञ्छा-ज्ञान-डिया-शक्ति आदि साधनों
 डे माध्यम से छस दृश्यमान जगत् की उत्पत्ति करते हैं, सदैव उसकी रक्षा डिया करते हैं और हिर युग की समाप्ति
 पर अपने रौद्र रुप द्वारा (या रुद्र का रुप धारण करके) उसको विनष्ट कर डेते हैं । डे गुणशाली (अथवा सत्त्व,
 रजस्, तमस् डे समन्वय), छस जगत् डे भीतर आप ही सब प्राणियों की आत्मा डे रुप में अन्तर्यामीभाव से
 विडार करते रहते हैं । आपको छोडः कर अन्ध को छ भी जगदात्मा डे रुप में प्रतिष्ठित नहीं है ॥ २ ॥

हे सम्पूर्ण जगत् के प्राण-स्वरूप विश्वात्मन् ! भगवान् शिव आदि परम योगीश्वर अपनी छन्द्रीयों को संयमित और चित्त को स्थिर करते समाधि की अवस्था में आपके अन्दर नित्य रमण किया करते हैं (रमन्ते योगिनो यस्मिन् स रामः, योगी लोग समाधि की अवस्था में जिस परमतत्त्व में रमण करते हैं, उसे 'राम' कहते हैं) । तथापि ये लोग आपकी अगाध महिमा का अन्त पाने में सर्वथा असमर्थ रहते हैं क्योंकि आपके स्वरूप को साक्षात् वेद भी नहीं समझ पाये जो परम पुरुष के निःश्वास कहे जाते हैं और वे भी, 'नेति' 'नति' कहे जाते हैं, आपका वर्णन करते हैं ॥ ३ ॥

१ ईश्वर की निषेधात्मक व्याख्या 'न-एति' ('ऐसा नहीं') । ऋषियों का कहना है कि ईश्वर मन और वाणी से परे हैं अतः कोह नहीं बता सकता कि 'वह कैसा है'; केवल यही कहा जा सकता है कि 'वह कैसा नहीं है' । जगत् में जो कुछ भी दिभाए या सुनाए देता है या जो कुछ भी कल्पना का विषय हो सकता है, ईश्वर वैसा नहीं है, उससे भिन्न है ।

ऐसा तो संभव है कि कभी कोह बुद्धिमान् व्यक्तिपृथ्वी के समस्त अणु-परमाणुओं की गणना कर डाले, अथवा समुद्र में कितने जल-बिन्दु हैं इसका हिसाब लगा ले । यह भी संभव है कि आकाश में विद्यमान नक्षत्रों की कोह गिनती कर ले, किन्तु यह सम्भव नहीं है कि कोह आपके समस्त गुणों और शक्तियों का ओर-छोर पा सके क्योंकि वे असंख्य और अपरिमेय हैं ॥ ४ ॥

हे महामहिमशाली, आप स्वयमेव जगत् का नियमन करने वाले ऋत-तत्त्व हैं। अपरिवर्तनशील रूप से सदैव विद्यमान रहने के कारण आप को ही 'सत्य' तत्त्व भी कहा जाता है (तु) की।, 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म') । आपके सगुण अर्थात् निर्गुण होने के कारण ही कोह प्रकृत के रूप हैं । इसके अतिरिक्त आप विशुद्ध चैतन्य-स्वरूप अर्थात् अभास आनन्दमय हैं, किन्तु आपका वास्तविक स्वरूप तो वेदों की भी समझ से परे की वस्तु है । यह समस्त यशस्वि विश्व वस्तुतः आपका ही मूर्त रूप है । यह सब अत्यन्त गूढ़ है और बिरला ही कोह ऐसा मनुष्य होगा जो आपके वास्तविक स्वरूप को समझ सके ॥ ५ ॥

जब ब्रह्मा, शिव, इन्द्र आदि देवताओं और सिद्धों तथा मुनियों ने पृथ्वी का भार दूर करने के लिये स्तुतिपूर्वक आपसे प्रार्थना की तो सर्वव्यापी और सर्वत्र विद्यमान होते हुए भी आप महाराज दशरथ के घर में कौशल्या के पुत्र के रूप में प्रकट हो गये और अपने पावन चरणों के निक्षेप से आपने वसुमती (रत्नमयी) कही जाने वाली इस पृथ्वी को भी धन्य कर दिया ॥ ६ ॥

हे शरणागत वत्सल अर्थात् प्रणतजनों को सौभाग्य प्रदान करने वाले, आपने मुनि विश्वामित्र से 'बला' अर्थात् 'अतिबला' नामक दो अलौकिक महाविद्याओं प्राप्त करके एक ही बाण से उस दीर्घकाय अर्थात् भीषण राक्षसी (ताडिका) का वध करके मुनि विश्वामित्र के वन्यप्रदेश को सर्वथा निरापद कर दिया ॥ ७ ॥

उन भीषण सुबाहु और मारीय नाम के राक्षसों को जिनका मुझ अत्यन्त विकराल था, जो वेदों से घृणा करते थे और निरन्तर ऋषियों के द्वारा संपादित यज्ञों में विघ्न डाला करते थे, आपने दृढता से एक ही पैना बाण चला कर मार गिराया और यज्ञकर्ता ऋषियों के यज्ञ की रक्षा की ॥ ८ ॥

झिरे मूनि विश्वाभिन्ने के साथ जनकपुरी जाते हुअे मार्ग में आपने गौतम ऋषि की पत्नी (अहल्या) को, जो शाप के कारण प्रस्तर-शिला बन गई थी, अपने चरणों की धूलि से शाप-मुक्त करके निर्मल कान्ति वाली परम सुन्दरी स्त्री के रूप में परिणत कर दिया और झिरे (जनक की राजसभा में) भगवान् नीलकण्ठ (शिव) के उस विशाल सुदृढः धनुष को तोड़ः डाला ॥ ८ ॥

तत्पश्चात् आपने शरत्-पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान मुभवाली और सुधा के समान निर्मल, सुरम्य और गौरवर्ण के अंगों वाली, जनक की पुत्री, जगज्जननी, सुन्दरी सीता का शुभ मुहूर्त में पाणिग्रहण किया जो रत्नजटित वस्त्राभूषण धारण किये हुअे थीं। उस समय छन्द आदि देवताओं ने आकर माँ सीता के सम्मुख अपना शीश झुकाते हुअे अपने मुकुट को उनके चरणों पर रख कर उनकी वन्दना की ॥ १० ॥

जब त्रिपुरविनाशक भगवान् शंकर के टूटते हुअे धनुष के भीषण शब्द को सुन कर क्षत्रियों के शत्रु परशुराम कोष में भर कर जनकपुरी की ओर आते हुअे मार्ग में आपसे मिले तो आपने उनका असंमित अभिमान विनष्ट कर दिया। हे सूर्यवंश के मणि, अतुल बलशाली राम, आप मेरी सदैव रक्षा करें ॥ ११ ॥

हे सर्वव्यापी, इसके पश्चात् आपने देवताओं की रक्षा के लिये पिता की (वनवास संभन्धी) आज्ञा तुरन्त मान कर छोटे भाई तथा पत्नी को साथ लिया और जनस्थान नामक प्रदेश में जाकर कुल-युक्त वृक्षों तथा सधन वृक्षों के नीचे अपनी कुटिया बनाई जिससे आप वहाँ रहते हुअे राक्षसों के कुल का विनाश कर सकें ॥ १२ ॥

हे प्रभो, प्रबल शक्तिमान् लङ्काधिपति रावण की बहन (के अमर्द्र व्यवहार से भिन्न होकर) आपने लक्ष्मण के माध्यम से उसे उसके चेहरे को कुत्तुप करवा दिया और उसके पश्चात् भरदूषण आदि उन राक्षसों को मार कर, जो देवों के शत्रु थे और निरन्तर मुनियों-ब्राह्मणों आदि के विनाश में लगे रहते थे, उस जंगल को पूर्णतः निरापद कर दिया और तब वहाँ पर नागरिक जन निर्भय होकर विचरण करने लगे ॥ १३ ॥

दशानन रावण की आज्ञा से जब मारीच अेक विचित्र प्रकार के स्वर्ण-मृग का रूप धारण करके आपके सम्मुख विचरण करने लगा तो, हे प्राणतपाल रघुनाथ, आपने उसके मायावी रूप को जान कर अेक डीं बाण से उसको स्वर्ग लोक भेज दिया ॥ १४ ॥

हे रघुपति, क्योंकि पुलस्त्यवंशी रावण की मृत्यु समीप आ गई थी इसलिये वह दुर्बुद्धि (साधु का) कपट वेष धारण करके आया और आपकी अनुपस्थिति में माँ सीता का अपहरण करके ले गया। वस्तुतः, देवों की रक्षा के लिये राक्षसों का विनाश आवश्यक है यद्य आपने भली-भाँति मन में विचारा और तब आपकी ही मूल प्रेरणा से यह सब घटित हुआ ॥ १५ ॥

जब आप जानकी के वियोग में अेक सामान्य मानव की भाँति दुःखी होकर नर-लीला कर रहे थे तो आपने जंगल में अेक स्थान पर मरणासन्न अवस्था में गृह्य जटायु को देखा। उस समय आपने स्वतः अपने कर-कमलों से

उठा कर उसका उद्धार किया । आपका अपने भक्तों पर इस प्रकार का अतिशय वात्सल्य सदैव देखने में आता है ॥ १६ ॥

तत्पश्चात् आपने तीक्ष्ण तलवार से मांसाशी कबन्ध नामक राक्षस का शीघ्रतया वध कर दिया और फिर लक्ष्मण के साथ पम्पा सरोवर के तट पर पहुँचे । वहाँ वानरों के अधिपति (सुग्रीव) ने आप दोनों को देख कर वायु-पुत्र (हनुमान्) को आपकी जानकारी लेने के लिये भेजा । वे वरद, उन्डोंने (ब्राह्मण वेश में) आकर आपका संपूर्ण परिचय प्राप्त कर लिया ॥ १७ ॥

वे रघुपति, आपसे आपका समस्त वृत्तान्त सुन कर और यह जानकर कि आप असुरों के शत्रु हैं और दशरथ के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए हैं, निःशंक भाव से हनुमान् आपको बःःः उत्साह के साथ तुरन्त पर्वत के शिखर पर आसीन वानरराज सुग्रीव के पास ले गये जहाँ आप प्रभु ने उनके साथ मैत्री संबन्ध स्थापित कर लिया ॥ १८ ॥

वानरों के अधिपति, अतुल बलशाली और परम अभिमानी बालि को मार कर, जिसका सामना करना कठिन था और जिसकी देवता और असुर भी सरलता से बराबरी नहीं कर सकते थे, आपने वानरों के अधिपति की पदवी सुग्रीव को दे दी जिससे सिद्ध है कि आप अपने आश्रितों के लिये वात्सल्य के सागर हैं ॥ १९ ॥

वे रघुपति, सुनिश्चित रूप से आपके ही प्रताप के प्रभाव से हनुमान् समुद्र को तेजःः से लाँघ कर लंका पहुँच गये और वहाँ परम विशुद्ध जानकी जे के दर्शन कर, अक्षकुमार का वध करके, लंका पुरी को जला कर तथा वहाँ के उपवन को उजाड़ः कर आपके चरणों में वापिस लौट आये ॥ २० ॥

पवनपुत्र हनुमान् के मुख से सीता का असख्य दुःख सुन कर, राक्षसराज रावण एवं उसके कुल का वध करने के लिये आपने सुग्रीव, अङ्गद, हनुमान् आदि वीरों से युक्त बलवती वानरसेना को लेकर उसके ठापर यदःः आठ कर दी ॥ २१ ॥

अपने अभित बलशाली वानरों तथा बालुओं से घिरे हुए आप कंधे पर धनुष रभे, पीठ पर तरकश बाँधे तथा ढाथ में बाण लिये, धीरे-धीरे रास्ता पार करते-करते, सुग्रीव, अंगद तथा हनुमान के साथ विशाल समुद्र के तट पर आ पहुँचे ॥ २२ ॥

वे, कृपा के सागर, अगणित गुणों की भान, शरणागतवत्सल प्रभो, उसी समय दशानन के छोटे भाई ने समुद्र तट पर आकर आपके उन चरण कमलों में शरण ली जिनकी आराधना देवता भी किया करते हैं । आपने, वे पाप (एवं दुःख) विनाशक, उसी समय उसे लंकेश की पदवी प्रदान कर दी ॥ २३ ॥

वे कमलनयन, आपने उस समुद्रतट पर वानरों के साथ तीन दिन तक निवास किया । उसके पश्चात् किञ्चित् कोषाविष्ट होने का अभिनय करके आपने समुद्र पर यदःः आठ करने की ठानी, जिससे सागर अत्यन्त भयभीत हो गया और भक्ति भाव से जुककर मधुर वचनों से उसने रोमाञ्चित शरीर एवं गद्गद वाणी के द्वारा, वे रघुपति, बःःः देर तक आपकी स्तुति की ॥ २४ ॥

तब समुद्र की सलाह पर, आपकी आज्ञा से वानर वीर दसों दिशाओं में गये और अपनी भुजाओं के बल से बऽऽंभे-बऽऽंभे प्रस्तर-भाण्ड उभाऽऽं कर ले आये । द्विर (राम नाम से अंकित) उन पत्थरों के द्वारा कपिश्रेष्ठ नील ने समुद्र की उत्ताल तरङ्गों के ठापर अेक विशाल मछासेतु का निर्माण किया जिससे आपके नाम की महिमा सुस्पष्ट है ॥ २५ ॥

यह कितना अद्भुत है कि जो पत्थर भारी होने के कारण सदैव पानी में डूब जाते हैं, वे आपकी महिमा से समुद्र में तैरने लगे । अथवा जो अपने नेत्रों के मन्द स्पन्दन मात्र से जन्म कटाक्ष द्वारा अगणित ब्रह्माण्ड उत्पन्न करने में समर्थ है, उसके संबन्ध में यह कौन सा आश्चर्य का विषय है ? ॥ २६ ॥

आपने सर्वप्रथम सम्पूर्ण वानरसेना को समुद्र के पार उतारा, उसके बाद स्वयं भी लक्ष्मण सहित पार उतारे और लंका पहुँचे । वहाँ युद्ध में राक्षसों के समूह को विध्वस्त करके रावण को भी उसके परिवार के साथ समाप्त कर दिया और इस प्रकार देवताओं को असुरों के भय से मुक्त कर दिया ॥ २७ ॥

तब ब्रह्मा, शिव एवं इन्द्र आदि के साथ देवों के समूह ने, सिद्धों ने तथा मुनियों ने दिव्य स्तोत्रों से आपकी स्तुति की और आपके ठापर विपुल पुष्पवृष्टि की । आपने अपनी करुणामयी स्निग्ध दृष्टि से देखते हुये देवों को कृतार्थ किया और उनको निर्भय कर दिया ॥ २८ ॥

लोगों के संतोष के लिये आपने नगर की जनता के सम्मुख वैदेही को अग्नि में प्रवेश करने की आज्ञा दी और इस प्रकार सबके समक्ष सीता को निष्कलंक प्रमाणित करके कुबेर के विमान (पुष्पक) द्वारा अपने नगर अयोध्या वापिस आकर आपने अपने आत्मीय जनों को आनन्दित किया ॥ २९ ॥

हे सीता के स्वामी, इस सड़स्र वर्षों तक आपने प्रसन्नतापूर्वक अयोध्या में रहते हुये इस पृथ्वी पर भली भाँति राज्य किया और अपनी प्रजा को उस काल में अतिवृष्टि-अनावृष्टि आदि दैवी आपदाओं (धृति) से सुरक्षित रखा । हे प्रभो, उस समय आपके यरगकमलों की समर्थना देवता, असुर तथा बऽऽंभे-बऽऽंभे राजा आकर अपने मुकुटों में ञ्चित मणियों से किया करते थे ॥ ३० ॥

आपके यरग कमलों का ध्यान करते हुये जो आपके गोपनीय बीजमंत्र रां का जप करते रहते हैं उनके घर में सदैव लक्ष्मी और सरस्वती विराजमान रहती हैं और ज़ुवन में अच्छे-अच्छे भोगों को भोग कर अन्त में वे आपके श्रेष्ठ परमपद को प्राप्त होते हैं । (कृशानुः = अग्नि, अग्नि का बीजाक्षर है 'र'। शेष = आ, शशधरः = चन्द्रमा = बिन्दु अथवा अनुस्वार)।

जो गुरुभुष से प्राप्त करके भगवान् राम के स्वबीज (रां) के साथ 'रामाय नमः' जोऽं कर इस षडक्षर मन्त्र (अर्थात् 'रा रामाय नमः') का नित्य जप करता है वह सम्पूर्ण विश्व में पूजा जाता है । अपने ज़ुवन काल में तो वह दिव्य भोग भोगता ही है, साथ में (मृत्यु के अनन्तर भगवान् विष्णु के) परम पद को प्राप्त करता है । (शेषाग्नी = अग्नि + शेष अर्थात् र + आ या 'रा', बीजाक्षर नित्य बिन्दु युक्त होता है अतः 'रां' । दहन = अग्नि, अग्नि का बीजाक्षर 'रं' है अर्थात् र वर्ण । मपरः = जिसके बाद में म लो अर्थात् राम । पवनः = वायु का बीजाक्षर 'य' ।

पूरे को मिला कर शब्द बना 'रामाय' । नमोऽन्तः = जिसके अन्त में नमः शब्द हो । इस प्रकार भीजमन्त्र 'रं रामाय नमः' यल है ॥ ३२ ॥

जो साधक मेधों के समान श्यामवर्ण के सलोने शरीर वाले, विद्युत के समान पीले रंग के यमकीले और सुन्दर वस्त्र धारण किये हुआ, कमल के समान नेत्र वाले और असंख्य कामदेवों के समवेत सुंदरता के समान लावण्यशाली भगवान राम का ध्यान करता है जिनके बाईं ओर विद्युद्गर्जा (स्वर्ण के समान शारीरिक कान्ति वाली) जानकी जो भङ्गुलुह स्नेहपूर्वक भगवान् राम के मुभारविन्द को निहार रही हैं, ऐसा साधक अतुलनीय सिद्धियों को प्राप्त करता है ॥ ३३ ॥

हे भगवन् आपके रूप अर्थात् आपकी विभूतियाँ अनन्त हैं; उन सबका ध्यान करने में देवता भी कभी समर्थ नहीं हो पाते । हे, निर्मल, आपकी सामर्थ्य अर्थात् आपके ऐश्वर्य का लला कौन अन्त पा सकता है जबकि सम्पूर्ण वेद भी विस्मित भाव से 'नेति' 'नेति' कह कर ही आपका वर्णन करते हैं ॥ ३४ ॥

हे रघुनाथ, आपका जो यल जल से भरे हुआ मेघ के समान रमणीय श्यामल रूप है उसको तत्त्वज्ञानी श्रेष्ठ मुनिजन अपने लृद्य-कमल में बार-बार ध्यान करते लये विषय-तृष्णा से विमुक्त होकर जगत् के प्रति आसक्ति से रहित हो जाते हैं और देवों के द्वारा वन्दनीय आपके उस परम-पद को प्राप्त करते हैं जहां आनन्द का नित्य साम्राज्य है ॥ ३५ ॥

यहाँ शिवमहिम्नःस्तव (श्लोक २) का -

अतीतः पन्थानं तव य मडिमा वाऽमनसयो

रतद्व्यावृत्त्याऽयं यडितमभिधत्ते श्रुतिरपि ।

यल अंश तुलनीय है । तत् (वड) शब्द यहाँ ब्रह्म का वाची है । अतत् = जो ब्रह्म या परमेश्वर न हो । व्यावृत्ति का अर्थ है निरसन या निराकरण । विश्व में जितनी भी वस्तुएँ विद्यमान हैं या जिनकी कल्पना हो सकती है, परमेश्वर उन सबसे पृथक् है अतः उसकी केवल निषेधात्मक परिभाषा ही हो सकती है । जो कुछ भी लभ्यते-सुनते या सोचते-समजते हैं, उससे जो भिन्न हैं, वही ब्रह्म या परमेश्वर है । यही 'अतद्व्यावृत्ति' का भाव है ।

आप ही देवाधिपति छन्द्रे हैं, आप ही यन्द्रमा (या सोमरस) तथा सूर्य हैं । आप ही अग्नि तथा जल तत्त्व हैं, आप ही भूमि तथा वायु हैं । आप ही ब्रह्मा तथा रुद्र के रूप में जगत् के सर्जक तथा संहारक हैं । वस्तुतः जो कुछ भी इस संसार में दिग्भाह दे रहा है वड सब प्रकारान्तर से आप ही हैं । हे सर्वव्यापी, आपके अतिरिक्त इस जगत् में और किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है ॥ ३६ ॥

जब वैदिक-वाङ्मय समुद्र में डूब गया था तो हे सर्वात्मन, सृष्टि के प्रारम्भ में आपने ही मत्स्य रूप धारण करके उन वेदों को समुद्र से वाहर निकाला था । (उसके बाद) जब देवों ने अमृत प्राप्त करने की छ्छा से सागर का मन्थन किया और उसके लिये मन्थरायल को वहाँ लाये तो आपने ही ऐक शक्तिशाली कच्छप का रूप धारण करके उसको नीचे से संभाला और उसे पीठ पर उठाये रहे ॥ ३७ ॥

यत् श्लोक 'शिवमहिम्नःस्तव' के-

त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं द्रुतवल्:

त्वमापस्त्वं व्योम त्वमु धरणितात्मा त्वमिति य ।

परिच्छिन्नामेवं त्वधि परिणता भिन्नतु गिरे

न विद्मस्तत् तत्त्वं वयमिदं तु यत्त्वं न भवसि ॥

से पूर्णतया प्रभावित है और एक प्रकार से उसकी छाया लगता है।

हे अनन्त गुणशाली, आपने एक विशाल वराल का रूप धारण करके प्रलयकालीन समुद्र में विचरण करते हुए
उस अतुलबलशाली, घोर दैत्य, छिरणयाक्ष का वध किया और तदनन्तर अपनी दंष्ट्रा के अग्रभाग पर सम्पूर्ण
पर्वतों से युक्त पृथ्वी को उठाकर ठोपर ले आये ॥ ३८ ॥

जब आपको पता चला कि आपके भक्त प्रह्लाद को, जो परम विद्वान्, सख्यरिश् और निष्पाप था, उसके दुर्बुद्धि
पिता (छिरणयकशिपु) ने आपके प्रति भक्ति-भाव रखने के कारण अनेक प्रकार से दण्डित किया है तो आपने तीन
नेत्रों से युक्त, सिंह का मिला-जुला एक विचित्र और उग्र रूप बनाया और उस अमित बलशाली दैत्यराज को
धीर कर रख दिया ॥ ३९ ॥

हे राम, प्राणतजनों के लिये करुणा के सागर, जब आपको पता चला कि छन्द्र का अश्वर्य अतुलबलशाली दैत्यराज
बलि ने छीन लिया है तो छन्द्रादि देवों के द्वारा आकर स्तुति करने पर आपने एक तेजस्वी वामन-रूप धारण किया
और देवताओं के शत्रु उस बलि को (वरुणपाशों से) बाँध लिया ॥ ४० ॥

शस्त्र-अस्त्र चलाने में कुशल, प्रबल बलशाली (आततायी) क्षत्रियों के कुल को, हे रघुपति, आपने (परशुराम का
रूप धारण करके) छक्कीस बार विनष्ट किया। (तदनन्तर) हे लक्ष्मी के स्वामी, आपने (कृष्ण के रूप में) आविर्भूत
छोकर यादवों के कुल में उत्पन्न कंस आदि उग्र दैत्यों का विनाश करके पृथ्वी का भार ढलका दिया ॥ ४१ ॥

इस प्रकार, हे रामचन्द्रज, आपके विभिन्न रूपों का कोई ओर-छोर नहीं है। वे अनन्त हैं और इस जगत् में
कोई भी उनका गणना नहीं कर सकता। आप जगत् के अणु-अणु में व्याप्त हैं (विभु) तथा सत्त्व-रजस्-तमस्
रूप तीनों गुणों से रहित, विशुद्ध चैतन्य-स्वरूप, परमात्मा हैं। आपके गुण असंख्य और अपरिमेय हैं। आप
जगत् के नियन्ता एवं अनन्त तेजोमय हैं ॥ ४२ ॥

अनन्त गुणों के आगार, हे राम, आपको मेरा सदैव नमस्कार है। हे रघुपति, मैं आपको वारंगार पुनः पुनः
प्राणम करता हूँ। सम्पूर्ण मुनिजनों के द्वारा आराधनीय एवं वेदों के द्वारा डी जाने जा सकने वाले, भगवन्,
आपको मैं नमन करता हूँ। आपके भगवन्मय चरणकमलों में मेरा वारंवार प्राणम है ॥ ४३ ॥

आपके गुणों के समूह को यदि शेषनाग भी अपने एक सडस्र मुण्डों से कल्पन्त निरन्तर वर्णन करते रहें तो भी
वे उनका पार नहीं पा सकते, अतः कौन मरणधर्मा मनुष्य (अपने सीमित-जुवन काल में) उनका वर्णन करने में

समर्थ हो सकता है ? ठीक भी है, मय्यर कभी अनन्त आकाश को पार करके उसके दूसरे छोर तक नहीं जा सकते
॥ ४४ ॥


मैंने आपके निर्मल यरएा कमलों का आश्रय लेकर (हे राम) अत्यन्त भक्ति-पूर्वक विविध सुरभ्य पदों से अयोध्या
नगरी में इस स्तोत्र की रचना की है। जो रघुकुल शिरोमणि श्रीराम के इस मंगलमय स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ
करेगा वह पृथ्वी पर अनेक भोगों को भोग कर अन्त में भगवान् के उस नित्य परम-धाम को प्राप्त करेगा ॥ ४५ ॥

हे जानकीवल्लभ, भर दूषण आदि के निहन्ता भगवान् रघुनन्दन आपको नमस्कार है। संसार के सभी दुःखों का
शमन करने वाले और योगीश्वर भगवान् शंकर के द्वारा पूजित यरएाकमल वाले श्रीराम, आपको वारंवार प्रणाम
है ॥ ४६ ॥


(शास्त्रों में कला गया है कि) काम क्रोध आदि विकारों के उपर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। यदि ऐसा है
और काम वासना रहनी है तो मेरी धृष्टा है कि मेरा मन मुक्तिरूपी स्त्री कि कामना करे। क्रोध रहना हि है तो
मैं मेरे पापकर्मों के उपर क्रोध करूँ। यदि लोभ से छुटकारा नहीं मिलना है तो मेरा लोभ आपके यरएाकमलों के
प्रति हो। मेरा मोह (आसक्ति) अध्यात्मयोग के प्रति रहें और मेरे मत्सर (अवमानना या घृणा) कि पात्र मेरी
धृष्टियां हों (जो भोगों में विम रहती है)। हे राम, तुमको छोडकर इस पृथ्वी पार अन्यत्र कहीं भी मैं सुभ नहीं
देभता ॥ ४७ ॥

Proofread by PSA Easwaran

Hindi meanings encoded and proofread by Mandar Mali aryavrutta at gmail.com

——
shrIrAmamahimnaH Stotram with Hindi meanings

pdf was typeset on November 22, 2022

——
Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

